



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़ 1947 (श10)  
(सं0 पटना 1222) पटना, सोमवार, 14 जुलाई 2025

सं० 04/NULM-09-21/2025-7652/न0वि0एवंआ0वि0  
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

10 जुलाई 2025

विषय:— दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत आश्रयविहीनों हेतु आश्रयस्थल (शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस) घटक की मार्गदर्शिका के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक कुल देय राशि रू0 31,08,48,300.00 (रूपये इकतीस करोड़ आठ लाख अड़तालीस हजार तीन सौ मात्र) का व्यय राज्य योजना मद से किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 सितंबर, 2013 को मौजूदा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस०जे०एस०आर०वाई०) के स्थान पर दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे०एन०यू०एल०एम०) प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य सभी शहरी गरीबों को आयजनक गतिविधियों से जोड़ना, सशक्त संस्थानों में संगठित करना, कौशल विकास के अवसर प्रदान करना एवं आधारभूत संरचनाओं का विकास करना है। योजनान्तर्गत वर्तमान में राज्य के 73 नगर निकायों में 112 आश्रयस्थलों का संचालन क्षेत्र स्तरीय संगठनों (ALO) के साथ एकरारनामा कर कराया जा रहा है।

2. योजनान्तर्गत नवनिर्मित एवं पुराने भवन में संचालित आश्रयस्थलों के प्रबंधन एवं संचालन हेतु राशि का आवंटन नगर निकायों को किया जाता है। आवंटित की जाने वाली राशि जो कि आश्रयस्थल की क्षमता के अनुरूप निर्धारित की गयी है में नगर निकायों को प्रथम वर्ष में अनावर्ती राशि जिससे मूलभूत सुविधाओं से संबंधित बुनियादी उपस्कर एवं सामग्री का क्रय किया जाता है तथा आवर्ती राशि जिससे मानवबल का मानदेय, हाउसकीपिंग, कुल Beds के 10% (100 Beds के आश्रय स्थल में 10 आश्रयविहीन) हेतु निःशुल्क भोजन, Contingency fund एवं अन्य मद में राशि उपलब्ध करायी जाती है। द्वितीय वर्ष से पाँचवें वर्ष तक केवल आवर्ती राशि नगर निकायों को आश्रय स्थल के संचालन हेतु उपलब्ध कराई जाती है।

3. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुरूप सभी संचालित आश्रय स्थल के प्रचालन एवं संचालन (Operation & Maintenance) के लिए प्रथम पाँच वर्ष तक DAY-NULM योजनान्तर्गत केन्द्रांश 60:40 राज्यांश के अनुपात में राशि को व्यवहृत किया गया है। ऐसे सभी आश्रयस्थलों जिनका संचालन करते हुए 5 वर्ष पूर्ण हो गया है के प्रचालन एवं संचालन हेतु राशि का प्रबंध नगर निकाय के

स्वयं के संसाधन/CSR/NGO/राज्य मद आदि से किया जाना है। वर्तमान में नगर निकायों के वित्तीय स्थिति को देखते हुए उक्त प्रचालन एवं संचालन मद की राशि का व्यय राज्य योजना मद से किया जाना है।

4. आश्रय स्थल के प्रचालन एवं प्रबंधन हेतु प्रति बेड के दर से निकाय को राज्य योजना मद से प्रति वर्ष आवंटित किया जाना है।

5. अतः दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत आश्रयविहीनों हेतु आश्रयस्थल (शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस) घटक की मार्गदर्शिका के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक कुल देय राशि ₹ 31,08,48,300.00 (रुपये इकतीस करोड़ आठ लाख अड़तालीस हजार तीन सौ मात्र) का व्यय राज्य योजना मद से किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

उक्त प्रस्ताव पर दिनांक-24.06.2025 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या-11 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

**आदेश:-**आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

आदेश से,  
अभय कुमार सिंह,  
सरकार के सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1222-571+200-डी0टी0पी0।  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>